

भारत का राजपत्र **The Gazette of India**

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

PUBLISHED BY AUTHORITY

प्राधिकार से प्रकाशित

सं० 155]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अप्रैल 24, 1970/वैशाख 4, 1892

No. 155]

NEW DELHI, FRIDAY, APRIL 24, 1970/VAISAKHA 4, 1892

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

ELECTION COMMISSION OF INDIA

NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd April 1970

S. O. 154. —In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 22 of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission hereby makes the following amendment in the Table appended to its Notification No. 434/UP/67, dated the 11th January, 1967, namely :—

Against item 25—Sultanpur, in Column 3, for the existing entries, the following shall be substituted :—

1. Sub-Divisional Officer/Sub-Divisional Magistrate, Amethi,
 2. Additional Sub-Divisional Magistrate/ Additional Sub-Divisional Officer, Amethi,
 3. Deputy Collector-Cum-Sub-Divisional Officer, Kadipur,
 4. Tahsildar, Amethi,
 5. Tahsildar, Agriculture Dues, Sultanpur, and
 6. Sub-Divisional Officer-Cum-Settlement Officer (Consolidation), Kadipur.
2. The above amendment shall take effect from the 17th April, 1970.

[No. 434/UP/70(1)]

By Order,

K. S. RAJAGOPALAN

भारत निर्वाचन आयोग

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 अप्रैल, 1970

एस०प्रो० 1524.—लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 22 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निर्वाचन आयोग अपनी अधिसूचना सं० 434/उ० प्र०/67 तारीख 11 जनवरी, 1967 से संलग्न सारणी में एनद् द्वारा निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात्—

स्तम्भ 3 में मद 25—सुल्तानपुर के सामने विद्यमान प्रविष्टियों के लिए, निम्नलिखित प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी :—

- (1) उप-खण्ड आफिसर/उप-खण्ड मजिस्ट्रेट, अमेठी।
- (2) अपर उप-खण्ड मजिस्ट्रेट/अपर उप-खण्ड आफिसर, अमेठी।
- (3) उप-क्लेक्टर एवं उप-खण्ड आफिसर, कादीपुर।
- (4) तहसीलदार, अमेठी।
- (5) तहसीलदार, कृषि शोध राशि, सुल्तानपुर, तथा
- (6) उप-खण्ड आफिसर एवं बन्वोबस्त अधिकारी (चकबन्दी), कादीपुर।

2. उपर्युक्त संशोधन 17 अप्रैल, 1970 से लागू होगा।

[सं० 434/उ० प्र०/70(1)]

आदेश से,

के० एस० राजगोपालन, सचिव।